

प्रेस विज्ञप्ति

येरवडा सेंट्रल जेल, पुणे द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एमआरसेटी के माध्यम से कैदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुणे, 7 दिसंबर, 2021 : येरवडा सेंट्रल जेल, पुणे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र एमआरसेटी (महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से अपने कैदियों के लिए येरवडा सेंट्रल जेल में आयोजित एक कार्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल), महाराष्ट्र राज्य के मार्गदर्शन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एमआरसेटी के सहयोग से लगभग 100 प्रतिभागियों के लिए, उनके पुनर्वास और सामाजिक समावेश पर फोकस के साथ, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुवात की गई। श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में श्री योगेश देसाई, पुलिस उप महानिरीक्षक (जेल); श्री विवेक धवन, अंचल प्रबंधक, पुणे पूर्व अंचल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; सुश्री रानी भोसले, येरवडा सेंट्रल जेल की अधीक्षक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एमआरसेटी, पुणे के अधिकारी भी उपस्थित थे।

उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल), महाराष्ट्र राज्य ने कहा कि 'कैदी प्रशिक्षण हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक आएं इसकी बजाय बैंक ने उनसे संपर्क कर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक बड़ा कदम उठाया है। कैदियों को एक बार जेल से रिहा होने के बाद आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरल लेकिन प्रभावी तरीके से तैयार किए गए हैं। श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी ने यह भी कहा कि कैदियों को एमआरसेटी से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्हें उचित ऋण सुविधा प्रदान कर सकेगा।

इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक श्री ए. बी. विजयकुमार ने कहा कि हम समावेशी वृद्धि के लिए *आजादी का अमृत महोत्सव* मना रहे हैं, ऐसे में जेल के कैदियों के लिए यह सीखने और स्वयं को विकसित करने का एक शानदार अवसर है क्योंकि जब वे जेल से बाहर होंगे तो यह उन्हें गर्व के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायक होगा। श्री विजयकुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पीएम स्वनिधि योजना छोटे विक्रेताओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने पर कैदी और उनके परिवार के सदस्य बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने 7 एमआरसेटी द्वारा महाराष्ट्र के सभी जिलों में इस तरह के मॉडल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

एमआरसेटी द्वारा लगभग 100 कैदियों के लिए तीन विशिष्ट श्रेणियों यथा पोल्ट्री प्रशिक्षण, घरेलू उपकरणों की मरम्मत और सुधार; मोबाइल मरम्मत, विशेषकर महिला कैदियों के लिए पापड़, अचार और मसाला आदि बनाने का प्रत्येक दस-दस दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुने गए कैदियों का निकट भविष्य में रिहा होना निर्धारित है।